

HDSB के स्कूल में आना - एलिमेंट्री वाले माता-पिता/अभिभावकों के लिए प्रोटोकॉल

स्कूल में दाखिल होने के लिए माता-पिता /अभिभावकों की जिम्मेदारियां:

1. स्कूल में दाखिल होने के लिए जरूरी है कि आप:
 - a. सांस की किसी बीमारी के लक्षणों से मुक्त हों
 - b. स्कूल में दाखिल होने की तिथि से पहले १४ दिन के दौरान कैनेडा से बाहर किसी यात्रा पर न गए हों
 - c. कोविड-१९ के पक्के मरीज या कोविड-१९ जैसे लक्षणों (बुखार, नई खांसी, सांस लेने में तकलीफ) वाले किसी व्यक्ति की देखभाल न की हो और न ही जानते हुए उनसे संपर्क किया हो।

यदि आप इनमें से कोई भी शर्त पूरी नहीं करते हो तो आप स्कूल में न आएँ। आपको स्वास्थ्य अधिकारियों की सिफारशों का पालन करना चाहिए।

आपको अपनी निजी स्वयं-मूल्यांकन पर भी विचार करना चाहिए:

- a. क्या आपकी आयु ७० वर्ष से अधिक है?
- b. क्या आप में रोग प्रतिरोधक शक्ति की कमी है या क्या आप में स्वास्थ्य की कुछ भीतरी समस्याएं हैं?
- c. क्या आप बजुर्गों या प्रतिरोधक शक्ति की कमी वाले लोगों की देखभाल के लिए जिम्मेदार हैं?

यदि आप स्कूल आने में असमर्थ हैं तो वैकल्पिक प्रबंध के लिए कृपया प्रिंसीपल से संपर्क करें।

2. माता/पिता/अभिभावक में से केवल एक व्यक्ति को निश्चित समय-सीमा में तथा निश्चित अवधि के लिए स्कूल में आने की अनुमति है। इस दौरान बच्चों को स्कूल में आने की अनुमति नहीं है।
3. स्कूल की चीजें वापिस करते समय उन्हें निर्धारित मेज पर या डिब्बे में डाल दें। अन्य चीजों को हाथ न लगाएं। यदि आप अगले वर्ष हाल्टन डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड में वापिस नहीं आ रहे हैं तो स्कूल बोर्ड का साज-सामान, यदि ऐसा लागू होता है, वापिस करना जरूरी है।

4. किंडरगार्टन - ग्रेड ६ के लिए: छात्रों की सभी चीजों को छात्र के नाम वाले एक बैग में इकठ्ठा किया जाएगा जो क्लासरूम के एक डेस्क पर मौजूद रहेगा। **अपने बच्चे (बच्चों) के होमरूम क्लास के कमरों के नंबर साथ लाना याद रखें। तथा टीचरों के नाम भी। **
5. ग्रेड ७ तथा ८ के लिए:
 - स्कूल की चीजों को छोड़कर, लॉकर की बाकी चीजें ले जाने के लिए कृपया अपने साथ घर से एक थैला लेकर आएं।
 - स्कूल की प्रापर्टी को लॉकर में ही छोड़ दिया जाए। कोई कूड़ेदान उपलब्ध नहीं होंगे। कृपया लॉकर की चीजों को घर लेजाकर ही वहां पर उनका निपटारा करें।
 - अपने बच्चे का लॉकर नंबर तथा ताले का कांबिनेशन अपने साथ लाना याद रखें। आपके वहां आने वाले दिन वहां पर ताला तोड़ने वाला स्टाफ उपलब्ध नहीं होगा।
 - होमरूम क्लास रूम जा कर छात्र के नाम के लेबल वाला बैग ले लें जिसमें क्लासरूम में छोड़ी गई निजी चीजें तथा वर्ष-अंत की सामग्री, यदि कोई है, शामिल हैं।
6. कृपया पहुंचने / दाखिले से पहले अपने हाथ सेनिटाइज़ करें।
7. जब आप पहुंचें तो अपनी गाड़ी को दूसरी गाड़ियों से कम से कम २ मीटर की दूरी पर खड़ी करें।
8. केवल निर्धारित प्रवेश द्वार से स्कूल के अंदर तथा बाहर जाएं और अन्य लोगों से लगभग २ मीटर की दूरी बनाकर रखें। प्रिंसीपल या उनका प्रतिनिधि आपको अंदर लाएंगे तथा बाहर ले जाएंगे।
9. स्कूल में मौजूदगी के दौरान:
 - जहां तक हो सके भवन में लगी वस्तुओं (दरवाजों के हैंडल आदि) को हाथ न लगाएं।
 - खांसी /छींक अपनी कोहनी में करें तथा अपने चेहरे को हाथ लगाने से परहेज करें।
 - दूसरों के साथ बातचीत करने से परहेज करें तथा स्कूल /प्रापर्टी के किसी भी इलाके में इकठ्ठे न हों।
 - पूरा समय दूसरों से २ मीटर की भौतिक दूरी बनाकर रखना सुनिश्चित करें।
 - अपने बच्चों के बैग /चीजें जल्दी से जल्दी इकठ्ठे करें।
 - अन्य छात्रों के बैगों तथा चीजों को हाथ न लगाएं।

- अपने निर्धारित समय के बाद यहां न रुकें क्योंकि इससे अगले निर्धारित माता/पिता/अभिभावक के दाखले में देरी होगी।

10. स्कूल से बाहर उसी दरवाजे से जाएं जिस से अंदर आए थे ताकि आपको जल्दी से लौग आउट किया जा सके।